

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1679.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, राजगढ़ जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, राजगढ़ जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	-	मंगला-शैलेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		जशोदी बाई-भूरजी गूजर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो		श्रीमती मेहरून निशा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन		श्रीमती सबिना कमाल मेवाती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार		लक्ष्मीचन्द्र जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच		शशि कान्त नागोरिया (गोलू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः		शकुन्तला विजयवर्गीय	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात		सुनील मेवाड़े	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ		पंडित ओम प्रकाश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10		पार्षद	9	नौ	उषा-प्रिंस मेवाड़े	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	तारामणी बालू शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	दिनेश कुमार मोर्य	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	भंवरी बाई-मथुरालाल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दीपक नागर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती भावना मनोजसिंह सेंगर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रिंकू राजेश खरे	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1680.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	अखिलेश जोशी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	फूल सिंह मेवाड़े	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	जेबा-इप्तेखारउद्दीन (भैय्या)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	हिमांशु पिता स्व गोपाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अंशु दीपक जाट	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शांतादेवी जगदीश पवार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	विष्णु साहू	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	कलीबाई w/o नवल किशोर कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	“कमलेश दिलिप शिवहरे”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	दुर्गा शाक्यवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	“यूनूस मोहम्मद”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	गोपाल बंसल रामप्रसाद बंसल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	मंजु-ज्ञानु विजयवर्गीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मंगला गिरिराज गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अशोक गुप्ता (टी.बी.)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16		पार्षद	15	पन्द्रह	उषाबाई मोग्या	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	गुलाब बाई बारोढ़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	हरिश कुमार S/o श्री जमनालाल राठौर	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	सुशईलाबाई w/o राधेश्याम गाडरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1681.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद्, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	उर्मिला राजेन्द्र उपाध्याय (कामरेड)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अदिति अभिषेक सक्सेना	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	राजू सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	कैलाश नारायण सेन "गुड्डु भैया"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	देवकी बाई विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रहीसा शकील एहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	जमीला-सदाकत अली	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	साधना-नारायण बाथम	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	दीपक पालीवाल (एडव्होकेट)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नौरंगबाई सुन्दरलाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	असलम खां वारसी (हातिम भाई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मनोज जडिया	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राकेश रोसिया	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	आशाबाई वर्मा	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मंजू 'विजयवर्गीय'	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	दिनेश नागर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1682.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, तलेन, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, तलेन जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	सीमा-संजय भट्टड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रमेश यादव पिता शंकरलाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्यामसुन्दर वात्रे (पुष्पद)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अवधनारायण, हरिनाथारण (पिता)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	काजल सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मोहनलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	अमीना बी पत्नि अजीज शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	साजिद खॉ पिता श्री साबिर खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अफसर बी रईस आगा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	प्रेम बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	नजमा बी w/o नईम खॉ	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	शीला w/o कमल यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	दिनेशचन्द्र	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति राधाबाई पत्नि ओमेन्द्रसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुशीला बाई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	तेजसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1683.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, खुजनेर, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, खुजनेर जिला राजगढ़	अध्यक्ष	-	-	पंकज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	राम कला बाई यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	ओम प्रकाश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	बसन्ती बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	गीता गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	डालीबाई	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रूबीना बी इलियास खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	चन्द्रकला देवी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	लोकेन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	जीतेन्द्र कुमार बाहेती	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कला बाई	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमनारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	कमल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	जायरा बी अकील अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	राधे श्याम गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	ओमप्रकाश गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1684.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सुठालिया, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर परिषद्, सुठालिया जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	रामसिंह पिता महेश्वरसिंह 'बना'	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	लाडकुंवर पति गोकुल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कैलाश पिता माँगीलाल लोधी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सूरज-पिता भंवरलाल भिलाला	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	नीतादेवी पति अखिलेश पालीवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अशोककुमार साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	किरण पति रघुवीर सिंह मेहर	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	लीलाधर पिता भोलाराम लोधी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रईसावाई-पति कंवरअली	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	प्रवीण कुमार-महेशकुमार पालीवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	शिखा पति मनोज मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कैलाश पिता मूलचंद मेहरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सावित्रीवाई पति अशोककुमार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	निरमा-श्यामसुन्दर नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	प्रेमबाई-मोहनसिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	देवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1685.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जीरापुर, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् जीरापुर जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	बलराम टांक	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शिवनारायण सेन	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुनील	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गिरिजा-सुरेश जयसवाल	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	मिथलेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	संतोषबाई w/o हीरालाल कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नितेश भावसार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सरदारबाई मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	माधुसिंह	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	ज्योतीबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	हरिसिंह-गंगाराम दांगी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मनोजकुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	पूरसिंह गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	यशोधरा w/o प्रेमनारायण शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मोलिका ऊर्फ मोबिना पत्नि वहीद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	निर्मलाबाई झावा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1686.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पचोर, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद्, पचोर जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	-	अनामिका पंकज यादव	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	कैलाश बाई पति रामदयाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
3		पार्षद	2	दो	पुरुषोत्तम वैष्णव 'पत्रकार'	भारतीय जनता पार्टी	
4		पार्षद	3	तीन	रीना सुदीप बना	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
5		पार्षद	4	चार	यदू बाई w/o शिवप्रसाद कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी	
6		पार्षद	5	पांच	मदन लाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7		पार्षद	6	छः	संजय तिवारी	भारतीय जनता पार्टी	
8		पार्षद	7	सात	लक्ष्मीदेवी कैलाश विजयपुरिया (गादिया).	निर्दलीय	
9		पार्षद	8	आठ	रेखा-जोगेन्द्र जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
10		पार्षद	9	नौ	संतोषबाई पति जगदीश अहिरवार	समाजवादी पार्टी	
11		पार्षद	10	दस	राधा सुधीर गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
12		पार्षद	11	ग्यारह	अमित गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी	
13		पार्षद	12	बारह	कैलाश देशवाली पिता सुखराम	भारतीय जनता पार्टी	
14		पार्षद	13	तेरह	कमल सिंह राजोरे	निर्दलीय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती सोना दीपक सोनी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	महेश भंडारी 'काका'	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1687.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, माचलपुर, जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगर परिषद्, माचलपुर जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	-	कन्हैयालाल वर्मा पिता भेरूलाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		विनिता योगेश माधावत	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो		सम्पतबाई पति राधेश्याम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन		महेश बारोड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार		बजरंग पिता गोपीलाल लववंशी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच		कैलाश लववंशी पिता भेरूलाल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः		सतीश चन्द्र गोयल S/o रामगोपाल गोयल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात		शेख रहुप	निर्दलीय
9		पार्षद	9	नौ		मकबुल बी पति शेख रफीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	10	दस		कालीबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	11	ग्यारह		रामचंद्र पिता बाबूलाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	12	बारह		प्रमिला w/o पवन राठौर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	13	तेरह		लक्ष्मीबाई पति बलवंतसिंह गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	14	चौदह		सारिका (पिंकी)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	15	पन्द्रह		अनिता पिता होकम पहलवान	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1688.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, खिलचीपुर जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, खिलचीपुर जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	डाँ दीपक नागर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	गीताबाई पति गिराज "रतलामी वाले"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राधाबाई पति गिरिराज जावा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शारदाबाई पति डूंगरसिंह कुशवाह	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अंजू-सोहनलाल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कमलाबाई पति सत्यानारायण मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	आयशा-मोहम्मद ताहीर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	हरीश कुमार गुप्ता "सीमा वाले"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	इरफान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	दिलीप	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राकेश जायसवाल	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	अनीता पति राजेन्द्र साहू डी.पी. फोटो वाले.	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राकेश कुमार उर्फ राकेश सौनी	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	राजू पिता ख्वाजू खाँ	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	कुसुम पति मनोज मालाकार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रामजानकी पति रामकरण मालाकार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1689.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बोडा जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बोडा जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	द्वारका प्रसाद (बंटी सोनी)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	लक्ष्मीबाई पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	हीरालाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अंतरबाई मोहनसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	वीरेन्द्रसिंह सिसौदिया (वकील)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	पूनम राजेश गुप्ता	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	राजेश पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	प्रेमसिंह भीलाला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	भगवानसिंह हिरालाल पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	रमेशचन्द्र टी.आई.	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सीमा भूपेन्द्रसिंह	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	बसन्तीबाई मोतीलाल मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सीमा राधेश्याम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नोरंग कैलाश	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पूरनलाल हजारीलाल अहिरवार	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	ममता संजयकुमार राठोर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1690.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कुरावर जिला राजगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कुरावर जिला राजगढ़.	अध्यक्ष	-	-	रमा देवी-जगदीश जागीरदार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	दिलीप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रविन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रामेती बाई-रामसिंह	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ज्योति-राजू चौकसे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मोहन वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कृष्णा कवर-दिग्पाल बना	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	शालिनी-पंकज	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	संगीता-कपिल माहेश्वरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	इमरान (पारे)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सतरूपा-दुर्गाप्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सीमा-मुकेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ठाकुर प्रसाद मीना उर्फ कल्लू	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	राजकुमारी-रामसिंह मेनपुरिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दिनेश मण्डलोई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कमल दला	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.